



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 261) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2016

सं0 03/ADB/12-01/2015—595
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

28 मार्च 2016

विषय:—ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट—1 अनुमानित लागत कुल—\$50 मिलियन यू0एस0 डॉलर (लगभग 311.30 करोड़ रू0) एवं गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट—2 अनुमानित लागत \$10.47 मिलियन यू0एस0 डॉलर (लगभग 64.91 करोड़ रू0) कुल 376.21 करोड़ रू0 की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू0एस0 डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में राज्य के चार शहरों यथा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता 200 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई।

ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है। योजना के अधीन भागलपुर एवं गया जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। सम्प्रति भागलपुर जलापूर्ति योजना चालू है। गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट—1 एवं 2 पर स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत गया जलापूर्ति योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में ADB द्वारा दी गई है। ADB Consultant की परामर्शी सेवा से कार्यान्वयन की रूप रेखा इत्यादि तैयार किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको), पटना को कार्यान्वयन एजेंसी घोषित करते हुए गया जलापूर्ति योजना का कार्य सौंपा गया है।

गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट—1 एवं प्रोजेक्ट—2 का अनुमानित लागत 60.47 Million US Dollar (लगभग 376.21 करोड़ रू0) इसकी गणना 1 US Dollar = 62 रुपये के आधार पर की गयी है।

2. गया जलापूर्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य गया के प्रत्येक नागरिक को 135 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ जल 24x7 उपलब्ध करवाना है। गया नगर निगम क्षेत्र में भूमिगत पानी की जलापूर्ति टयूबवेल के माध्यम से उपलब्ध करना प्रस्तावित है। इस योजना से गया के 6 लाख नागरिकों को 135 लीटर प्रतिदिन स्वच्छ जल 24x7

पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से जल की क्षति कम होगी। सभी Consumer को Metered स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में कुल 27 MLD पानी उपलब्ध है जो बढ़ाकर 132 MLD उपलब्ध कराया जायेगा।

गया बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटन की दृष्टिकोण से यह शहर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गया में देश-विदेश के लाखों पर्यटक भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया आते हैं। इस कारण गया एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान का शहर बन गया है।

गया नगर निगम के क्षेत्राधीन जलापूर्ति हेतु बिछाई गई प्रणाली अत्यंत पुरानी हो चुकी है तथा कई क्षेत्रों में इसका अभाव है। गया शहर को नई जलापूर्ति प्रणाली बिछाने तथा 24X7 शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है। योजना के लागू होने पर गया नगर निगम क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों को राष्ट्रीय माप-दण्डों के अधीन जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. गया जल परियोजना क्रियान्वयन दो पैकेज में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम पैकेज में 446 Km जल वितरण प्रणाली बिछाना 29 ट्यूबवेल का जीर्णोद्धार तथा 9 नये जलाशयों का निर्माण तथा एक 8 जलाशयों का जीर्णोद्धार शामिल है। पैकेज 2 के अन्तर्गत 24 नलकूप, 16 Km जल वितरण प्रणाली बिछाना तथा 2 जलाशयों का निर्माण शामिल है। प्रथम पैकेज में 311.30 करोड़ रु० द्वितीय पैकेज में 64.91 करोड़ रु० कुल 376.21 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

(1) प्रथम एवं द्वितीय पैकेज का कार्य 01.07.2016 से प्रारंभ होगा। प्रथम पैकेज का भौतिक कार्य 42 महीनों में अर्थात् 31.12.2019 को पूर्ण होगा तथा O & M 01.10.2017 से प्रारंभ होकर 30.06.2021 तक रहेगा। द्वितीय पैकेज का भौतिक कार्य 24 माह में अर्थात् 30.06.2018 को पूर्ण होगा तथा O & M 30.06.2021 तक जारी रहेगा।

4. योजना के लिए स्वीकृत राशि का 70 प्रतिशत ADB से ऋण के रूप में एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रकार योजना की कुल राशि 376.21 करोड़ रुपये में से 263.35 करोड़ रुपये ADB से ऋण एवं 112.86 करोड़ रुपये राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी गया जलापूर्ति प्रोजेक्ट-1 का निम्नलिखित है—

करोड़ रुपये में				
क्र.	वित्तीय वर्ष	ADB से ऋण	राज्यांश	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2016-17	32.69	14.01	46.70
2	2017-18	43.58	18.68	62.26
3	2018-19	54.48	23.35	77.83
4	2019-20	54.48	23.35	77.83
5	2020-21	32.68	14.00	46.68
Total		217.91	93.39	311.30

गया जलापूर्ति प्रोजेक्ट-2 का वार्षिक व्यय विवरणी निम्नवत है :-

(राशि करोड़ रुपये में)				
क्र.	वित्तीय वर्ष	ADB से ऋण	राज्यांश	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2016-17	11.36	4.87	16.23
2	2017-18	18.17	7.79	25.96
3	2018-19	9.09	3.89	12.98
4	2019-20	4.54	1.95	6.49
5	2020-21	2.28	0.97	3.25
Total		45.44	19.47	64.91

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक ढांचा निम्ननुसार होगा :- BUIDCo के स्तर पर PMU का गठन होगा जिसमें :-

क्रम सं०	पदनाम	प्रस्तावित पद संख्या
(i)	परियोजना निदेशक	01
(ii)	अतिरिक्त परियोजना निदेशक	01

(iii)	वित्त पदाधिकारी	04
(iv)	सेफ गार्ड पदाधिकारी	01
(2) परियोजना स्थल गया स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) का गठन किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित Professionals होंगे :-		
(i)	अधीक्षण अभियंता	01
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल	01
(iii)	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल	01
(iv)	लेखापाल	01
(v)	सेफ गार्ड पदाधिकारी	01

PMU एवं PIU को सहयोग देने के लिए PMC एवं DSC दो सलाहकार के रूप में कार्यरत है।

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O & M 30.06.2021 तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा व्यय परियोजना से ही होगा। 30.06.2021 के बाद इसे नगर निगम, गया को हस्तान्तरित करने पर उन्हीं के द्वारा O & M किया जायेगा।

ADB द्वारा Bihar Urban Development Investment Program (BUDIP)- Project-1 के तहत इस योजना के लिए Summary Appraisal Report (SAR) वर्ष 2014 में तैयार किया गया है। योजना के लिए Design & Supervision Consultant (DSC) एवं Programme Management Consultant का चयन कर लिया गया है। ADB द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 23.02.16 में मद सं0-04 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट-1 अनुमानित लागत कुल-\$50 मिलियन यू0एस0 डॉलर (लागभग 311.30 करोड़ रु0) एवं गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट-2 अनुमानित लागत \$10.47 मिलियन यू0एस0 डॉलर (लगभग 64.91 करोड़ रु0) कुल 376.21 करोड़ रु0 की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>